

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2025—चैत्र 14, शक 1947

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 फरवरी 2025

क्रमांक ESTB-1018(1)/14/2025-GAD-2.—इस विभाग के समसंख्यक आनलाईन अर्जित अवकाश आदेश दिनांक 09-12-2024 एवं 03-01-2025 द्वारा श्री सी. आर. प्रसन्ना (भा.प्र.से.), सचिव, सहकारिता विभाग को दिनांक 09-12-2024 से 10-01-2025 तक (33 दिवस) स्वीकृत लघुकृत अवकाश को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 की कंडिका-19 के प्रावधान अनुसार अर्जित अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

**कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मार्च 2025

क्रमांक/1278/एफ-11/21/2018/14-2.— भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र./एल-15016/10/2018-MPS दिनांक 11-10-2018 द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PMAASHA) के जारी दिशा-निर्देश एवं विभागीय पत्र क्र. 665 दिनांक 12-02-2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु क्र. 2.2 में उल्लेखित निर्देश के अनुक्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों फसल का प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) योजनांतर्गत चयनित जिलों में उपार्जन एवं भण्डारण हेतु विभागीय अधिसूचना क्र. 166 दिनांक 10-01-2025 के निरंतर में राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नानुसार उपार्जन केन्द्र एवं भण्डारण केन्द्र स्टेट वेयरहाउस गोदाम (डब्ल्यू.डी.आर.ए. से प्रमाणित) को भी अधिसूचित किए जाते हैं :—

क्र.	संभाग	जिला	विकासखण्ड	उपार्जन केन्द्र	संबद्ध भण्डारण केन्द्र
1	दुर्ग	बालोद	1 बालोद	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, सांकरा ज.	CGSWC बालोद
			2	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, निपानी	
			3	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, लाटाबोड़	
			4	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, पीपरछेड़ी	
			5 गुरुर	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, फागुनदाह	CGSWC चिटौद
			6	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, गुरुर	
			7	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, सनौद	
			8	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, बासीन	
			9 डौण्डी	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, डौण्डी	CGSWC डौण्डी
			10	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, चिखलाकसा	
			11 डौण्डीलोहारा	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, डौण्डीलोहारा	CGSWC सम्बलपुर
			12	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, सुरेगांव	CGSWC कोटेरा
			13	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, देवरी	CGSWC देवरी
			14	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, नांहदा	CGSWC कोटेरा/देवरी
			15 गुण्डरदेही	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, गुण्डरदेही	CGSWC गुण्डरदेही
			16	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, अर्जुदा	CGSWC मटेवा (अर्जुदा)
2	सरगुजा	बलरामपुर- रामानुजगंज	1 रामचन्द्रपुर	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कामेश्वरनगर	CGSWC सनावल
			2	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, त्रिकुण्डा	CGSWC प्रेमनगर
			3 बलरामपुर	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, डौरा (पस्ता)	CGSWC जवाहरनगर
			4	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, महाराजगंज	
			5	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, लिलौटी	CGSWC राजपुर
3	रायपुर	धमतरी	1 धमतरी	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, छाती	CGSWC धमतरी
			2 नगरी	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, नगरी	
			3 कुरूद	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कुरूद	CGSWC भाटागांव,
			4 मगरलोड	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मगरलोड	कुरूद

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मार्च 2025

क्रमांक/1280/एफ-11/21/2018/14-2.—प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PMAASHA) हेतु विभागीय पत्र क्र. 665 दिनांक 12-02-2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु क्र. 1.1 में परिशिष्ट-1 में केन्द्रीय एजेंसी के कार्यक्षेत्र हेतु जारी 16 जिलों की सूची में 17वें नम्बर पर जिला बालोद को सम्मिलित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	जिला	केन्द्रीय एजेंसी
17.	बालोद	एन.सी.सी.एफ.

शेष परिशिष्ट-1 अनुसार यथावत् रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास मिश्रा, उप-सचिव.

## ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी 2025

क्रमांक 591/एफ 1-6/2022/13/1.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक 595/एफ 1-6/2022/13/1 दिनांक 29-02-2024 द्वारा श्री राजेश कुमार शुक्ला, आत्मज स्व. श्री रमेश शंकर शुक्ला, कार्यपालक निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, अस्थाई रूप से, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 28-02-2025 को समाप्त हो रही है।

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्नियम की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री राजेश कुमार शुक्ला, आत्मज स्व. श्री रमेश शंकर शुक्ला को दिनांक 28-02-2025 के पश्चात्, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक अस्थाई रूप से, उक्त कंपनी में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किया जाता है।

3. श्री राजेश कुमार शुक्ला, द्वारा दिनांक 31-07-2025 को अपने मूल पद कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भी उक्त अवधि तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर बने रहेंगे।

4. श्री राजेश कुमार शुक्ला, संचालक एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 31-07-2025 को अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के उपरांत, उनका वेतन निर्धारण एवं सेवा शर्तें, पूर्व में विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 864/एफ-21/04/2020/13/2 दिनांक 04-05-2020 के अनुसार रहेंगे।

5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज कोशले, उप-सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 21 मार्च 2025

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/2096/भू-अर्जन/2024-25.—भू-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	एकड़ में	हेक्टेयर में	(5)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	कुण्डपान	21.1432	8.560	फुटीधर जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र

उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-04-2025 को समय प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत कुण्डपान, में नियत की गयी है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	फुटीधर जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	19 खातेदार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	36 वृक्ष
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक, शासकीय भूमि प्रभावित
(छः)	क्या प्रस्ताव अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	362.13 लाख (तीन करोड़ बासठ लाख तेरह हजार मात्र)
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	फुटीधर जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र से 270 हे. खरीफ फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. ग्राम कुण्डपान के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये — भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित उपाय तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय. — भूमि अर्जन और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जायेगा. संभावित व्यय राशि रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजेन्द्र कुमार कटारा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 फरवरी 2025

प्र. क्रमांक 202304042100072/अ-82/2022-23. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-ओंडेकेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

86/1	0.024
------	-------

योग	01	0.024
-----	----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कलमी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कार्तिकेया गोयल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड  
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25 फरवरी 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2024-25/9797.— श्री राम कैलाश पैकरा अनुविभागीय अधिकारी कृषि, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया को कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2024-25/3654-3655 दिनांक 13-09-2024 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/03/2024-25/1556 दिनांक 07-02-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के भारसाधक अधिकारी श्री राम कैलाश पैकरा अनुविभागीय अधिकारी कृषि, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया दिनांक 31-01-2025 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने का उल्लेख करते हुए श्री पैकरा के स्थान पर श्रीमती वंदना सिंह श्याम, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, को कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री राम कैलाश पैकरा अनुविभागीय अधिकारी कृषि, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया के स्थान पर श्रीमती वंदना सिंह श्याम, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया को कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2024-25/10009.— श्री पी. एन. सामल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बसना, जिला महासमुंद को कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6064 दिनांक 15-12-2023 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बसना, जिला महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बसना जिला-महासमुंद का पत्र क्रमांक मंडी/स्था./2024-25/422-1 बसना दिनांक 01-02-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के भारसाधक अधिकारी श्री पी.एन.सामल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बसना जिला महासमुंद दिनांक 31-01-2025 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने का उल्लेख करते हुए श्री सामल के स्थान अन्य किसी अधिकारी को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री पी.एन.सामल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बसना, जिला महासमुंद के स्थान पर श्रीमती उषाकांति खेस्स, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बसना, जिला-महासमुंद को कृषि उपज मंडी समिति बसना जिला महासमुंद का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवन्नी,  
संचालक.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th January 2025

No. 1560/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).— In exercise of the powers Conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 283 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Ku. Meenu Nand, Judicial Magistrate First Class, Dhamtari to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2025

क्रमांक 2142/चेकर/तीन-10-11/2000.— छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री पल्लव रघुवंशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कवर्धा अपने कार्य स्थल कवर्धा के अतिरिक्त पंडरिया में भी माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में कु. आकांक्षा राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कवर्धा न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पंडरिया के संतान पालन अवकाश की वापसी तक बैठक करेंगे बशर्ते माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) के द्वारा इनका संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

No. 2142/Checker/III-10-11/2000.— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that Shri Pallave Raghuvanshi, II Civil Judge, Senior Division, Kawardha shall continue to hold Link Court at Pandariya during first and second week of the month till the return of Ku. Akansha Rathore, Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Senior Division, Kawardha at Pandariya from child care leave subject to grant of child care leave to her by the Principal District and Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha).

Bilaspur, the 5th February 2025

No. 51/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Smt. Pratibha Verma	District & Additional Sessions Judge, FTSC (POCSO), Raigarh	I District & Additional Sessions Judge, Raigarh.
2.	Shri Devendra Sahu	District & Additional Sessions Judge (FTC), Raigarh	District & Additional Sessions Judge FTSC (POCSO), Raigarh

Bilaspur, the 5th February 2025

No. 53/Confdl./2025/II-2-1/2025.—Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, Member of Higher Judicial Service and presently posted as VI District & Additional Sessions Judge, Raigarh, is hereby, given additional charge of the Court of District & Additional Sessions Judge (FTC), Raigarh, in addition to his own duties, until further orders.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2025

क्रमांक 78/दो-3-30/2007.—छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक 4541/4458/21-ब/छ.ग./2024 दिनांक 17-12-2024 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) सपठित छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(सात) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की अनुशांसा पर छत्तीसगढ़ शासन, विभागीय जांच के आधार पर, श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य को आदेश के तामील होने की तिथि से दीर्घ शास्ति से दण्डित करते हुए सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है। श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, न्यायाधीश, परिवार, न्यायालय, कोरबा ( छ.ग.) दिनांक 17-12-2024 की अपराह्न में अनिवार्य सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 300 (तीन सौ) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 एवं संशोधन आदेश क्रमांक 1748/2335/XXI-B/C.G./24 दिनांक 25-07-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

Bilaspur, the 7th February 2025

No. 55/Confdl./2025/II-03-01/2025.—The following Member of Lower Judicial Service, as specified in Colum No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Ku. Sweta Baghel	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Bilaspur at Takhatpur.	Civil Judge Senior Division, Takhatpur, District-Bilaspur

Bilaspur, the 7th February 2025

No. 60/Confdl./2025/II-2-1/2025.—In partial modification of Registry Notification No. 51/Confdl./2025/II-2-1/2025 and Registry Order No. 53/Confdl./2025/II-2-1/2025 dated 05-02-2025, the date of taking over charge by Shri Devendra Sahu, District and Additional Sessions Judge (F.T.C.) Raigarh as District and Additional Sessions Judge F.T.S.C. (POCSO), Raigarh, is hereby, modified as 17-02-2025 F.N. positively and Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, VI District and Additional Sessions Judge, Raigarh, is directed to take over charge of the additional charge i.e. of the Court of District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Raigarh as soon as Shri Devendra Sahu makes over charge of the post of District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Raigarh.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,  
K. VINOD KUJUR, Registrar General.